

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न सं. †3073  
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

धार्मिक केन्द्रों से उत्पन्न राजस्व

†3073. श्री पी.सी. मोहन:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या धार्मिक केन्द्रों के विकास पर सरकार द्वारा जोर दिए जाने के कारण भारत में धार्मिक पर्यटन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है;
- (ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) धार्मिक केन्द्रों को और आकर्षक एवं आतिथ्यपूर्ण बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) गत पांच वर्षों के दौरान इन धार्मिक केन्द्रों के माध्यम से वर्ष-वार कितना राजस्व उत्पन्न हुआ है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'भारत में धार्मिक पर्यटन पर स्थायी प्रभाव' के संबंध में कोई अलग से अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, पिछले 5 वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटक यात्राएं और घरेलू पर्यटक यात्राएं निम्नानुसार हैं:-

पैरामीटर	घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या (मिलियन में)	वृद्धि दर (% में)	विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या (मिलियन में)	वृद्धि दर (% में)
2017	1657.6	2.61%	26.9	8.79%
2018	1854.9	11.84%	28.9	7.31%
2019	2321.98	25.26%	31.4	8.86%
2020	610.22	-73.72%	7.17	-77.17%
2021	677.63	11.05%	1.05	-85.29%
2022 (अ)	1433.92	111.61%	6.40	509.52%

अ : अनंतिम

(ग): पर्यटन का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है, तथापि, पर्यटन मंत्रालय अपनी योजना यथा तीर्थस्थल जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन सम्बन्धी अभियान राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद) के तहत देश भर में पूर्व-चिह्नित गंतव्यों पर तीर्थस्थल और/अथवा विरासत पर्यटन अवसंरचना के सृजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के अंतर्गत अब तक 1586.10 करोड़ रुपये की राशि से कुल 45 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

(घ): पर्यटन मंत्रालय धार्मिक केन्द्रों के माध्यम से सृजित राजस्व के आकड़े तैयार नहीं करता है। हालांकि, पिछले 5 वर्षों की विदेशी मुद्रा आय निम्नानुसार है:

वर्ष	करोड़ रुपये	% परिवर्तन
2018	1,94,881	9.6
2019	2,11,661	8.6
2020	50,136	-76.3
2021	65,070	29.8
2022 *	1,34,543	106.8
* :अनंतिम अनुमान		

\*\*\*\*\*